



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

6 अग्रहायण, 1940 (श०)

संख्या- 1065 राँची, मंगलवार, 27 नवम्बर, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

22 नवम्बर, 2018

संख्या-5/आरोप-1-27/2015-2784 (HRMS)--श्री अनंत कुमार, झा०प्र०से० (तृतीय बैच), तत्कालीन अंचल अधिकारी, चांडिल, सरायकेला-खरसावाँ के विरुद्ध श्रीमती सुखिया देवी, पति- स्व० मनोहर प्रसाद, पता- आनन्द नगर, पोस्ट-टाटानगर, बागबेरा, जिला-पूर्वी सिंहभूम एवं अन्य परिवादियों द्वारा भू-खण्ड नामांतरण हेतु पैसा माँगने तथा पैसा नहीं देने पर गलत नियत से नामांतरण अस्वीकृत करने का आरोप प्रतिवेदित किया गया।

उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ के पत्रांक-1684/रा०, दिनांक 10 अक्टूबर, 2015 द्वारा परिवाद पत्र के आलोक में श्री कुमार के विरुद्ध प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया। परन्तु आरोप प्रपत्र-‘क’ में साक्ष्य तालिका एवं उससे संबंधित अभिलेख संलग्न नहीं रहने के कारण श्री कुमार के विरुद्ध विभाग द्वारा प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित किया गया।

श्री कुमार के विरुद्ध प्रपत्र- ‘क’ में प्रतिवेदित आरोपों की जाँच हेतु विभागीय संकल्प सं०-4020, दिनांक 16 मई, 2016 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्री एहतेशामुल हक, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। पुनः श्री हक के स्थान पर संकल्प सं०-7840, दिनांक

9 सितम्बर, 2016 द्वारा श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी श्री झा के पत्रांक-150, दिनांक 29 नवम्बर, 2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।

श्री कुमार विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत, श्री कुमार के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14 (i) के तहत "निन्दन" की सजा सेवा सम्पुष्ट की अर्हता प्राप्त करने की तिथि से देने का दण्ड प्रस्तावित किया गया।

उक्त प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय पत्रांक-113, दिनांक 3 जनवरी, 2018 द्वारा श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी। श्री कुमार के पत्रांक-83, दिनांक 3 फ़रवरी, 2018 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर समर्पित किया गया, जिसमें इनके द्वारा कोई नया तथ्य अंकित नहीं किया गया।

अतः श्री अनंत कुमार, झा०प्र०से० (तृतीय बैच), तत्कालीन अंचल अधिकारी, चांडिल, सरायकेला-खरसावाँ द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकार करते हुए झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14 (i) के तहत सेवा सम्पुष्ट की अर्हता प्राप्त करने की तिथि से "निन्दन" का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	ANANT KUMAR 110071163862	अतः श्री अनंत कुमार, झा०प्र०से० (तृतीय बैच), तत्कालीन अंचल अधिकारी, चांडिल, सरायकेला-खरसावाँ को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14 (i) के तहत सेवा सम्पुष्ट की अर्हता प्राप्त करने की तिथि से "निन्दन" का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972
